



# विशेष इर्जिंगा

## उत्पाद

भाकृअनुप-केंद्रीय मात्स्यकी प्रौद्योगिकी संस्थान का वेरावल अनुसंधान केंद्र  
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद  
मत्स्यभवन, भिडीया, वेरावल, गुजरात 362 269



**प्रकाशन:** डॉ.जॉर्ज नैनन  
निदेशक  
भाकृअनुप – केमाप्रौसं, कोचीन

**निर्माण:** डॉ. आशीष कुमार झा  
प्रभारी वैज्ञानिक,  
भाकृअनुप – केमाप्रौसं, वेरावल, गुजरात

#### संकलन एवं संपादन

सरिका, के.  
श्रीजित, एस.  
आशीष कुमार झा

© 2022 भाकृअनुप-केंद्रीय मात्स्यकी प्रौद्योगिकी संस्थान का वेरावल अनुसंधान केंद्र

#### तकनीकी सहायता

परमार एजाज ए. रहीम  
निम्मी एस. कुमार  
कृपलाणी योगेशकुमार धरमदास

मुद्रण कार्य: मधुवन प्रेस, वेरावल, गुजरात

भाकृअनुप-केंद्रीय मात्स्यकी प्रौद्योगिकी संस्थान का वेरावल अनुसंधान केंद्र  
(भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद)  
मत्स्यभवन, भिडीया, वेरावल,  
गुजरात 362269  
दूरभाष (02876) 231297,  
फैक्स (02876) 231576  
ईमेल: veravalcift@gmail.com

# विशेष झींगा उत्पाद

संकलन एवं संपादन

सरिका, के.  
श्रीजित, एस.  
आशीष कुमार झा

**2022**



भाकृअनुप-केंद्रीय मात्रिस्यकी प्रौद्योगिकी संस्थान का वेरावल अनुसंधान केंद्र  
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद  
मत्स्यभवन, भिडीया, वेरावल, गुजरात 362 269



# विशेष झींगा उत्पाद

## 1. सेंटर – पील श्रीम्प / झींगा

**सामग्री:** मध्यम आकार के मीठे पानी के झींगे/समुद्री/सुसंस्करित झींगे (26/30 से 31/40 काउंट/किग्रा)

**तैयारी:** झींगे को पीने योग्य पानी में धो लें। सिर, अग्र भाग और पूँछ को बनाए रखते हुए केंद्र में छीलें। पृष्ठीय भाग के बीच एक नुकीली सुई या नुकीली बांस की छड़ी डालकर और नस को उठाकर डी-वेन करें। धीरे से ऊपर की ओर उठाते हुए टेलसन को हटा दें। पैकेज को नुकसान से बचाने के लिए नुकीलापन को कम करने के लिए सिर और पूँछ को ट्रिम करें।

**पैकेजिंग:** ट्रे (पीवीसी/पॉलीस्टीरिन) में व्यवस्थित रूप से रखें और लैमिनेटेड पाउच में वैक्यूम पैक करें।

**फ्रिजिंग और भंडारण:** मास्टर कार्टन में -40°C पर ब्लास्ट फ्रिजिंग और -18°C से नीचे भंडारण



## 2. पका हुआ सेंटर – पील श्रीम्प / झींगा

**सामग्री:** मध्यम आकार के मीठे पानी से उपलब्ध झींगे / समुद्री / सुसंस्करित झींगे (26/30 से 31/40 गिनती / किग्रा)

**प्रक्रिया:** झींगे को पीने योग्य पानी में धो लें। सिर, अग्र भाग और पूँछ को बनाए रखते हुए केंद्र में छीलें। धीरे से ऊपर की ओर उठाते हुए टेलसन को हटा दें। आकार श्रेणी के आधार पर 2-3 मिनट के लिए झींगा को 1% उबलते हुए लवण जल में पकाएं। ठंडे पानी में ठंडा करें। पैकेज को नुकसान से बचाने के लिए नुकीलापन को कम करने के लिए सिर और पूँछ को ट्रिम करें।

**पैकेजिंग :** पीवीसी/पॉलीस्टाइरीन ट्रे में व्यवस्थित रूप से रखें और लैमिनेटेड पाउच में वैक्यूम पैक करें।

**फ्रिजिंग और भंडारण:** मास्टर कार्टन में -40°C पर ब्लास्ट फ्रिजिंग और -18°C से नीचे भंडारण



### 3. ईसी-पील श्रीम्प / झींगा

**सामग्री:** मीठे पानी का झींगा (एम.रोसेनबर्गी) / वन्नामेई झींगा 26/30 से 31/40 काउंट/किग्रा

**प्रक्रिया:** झींगे को पीने योग्य पानी में धो लें और सिर को अलग करें। पृष्ठीय खंडों के बीच एक नुकीली सुई या नुकीली बांस की छड़ी डालकर और नस को उठाकर डी-वेन करें। धीरे से ऊपर की ओर उठाते हुए टेलसन को हटा दें। पकी हुई झींगा को छीलने में आसान बनाने के लिए छल्ली को अग्र भाग को बरकरार रखते हुए काटें।

**पैकेजिंग :** पीवीसी/पॉलीस्टाइरीन ट्रे में व्यवस्थित रूप से रखें और लैमिनेटेड पाउच में वैक्यूम पैक करें।

**फ्रीजिंग और भंडारण :** मास्टर कार्टन में -40°C पर ब्लास्ट फ्रीजिंग और -18°C से नीचे भंडारण



### 4. पकाया हुआ ईसी-पील श्रीम्प / झींगा

**सामग्री:** मीठे पानी का झींगा (एम.रोसेनबर्गी) / वन्नामेई झींगा 26/30 से 31/40 काउंट/किग्रा

**प्रक्रिया:** झींगे को पीने योग्य पानी में धो लें और सिर को अलग करें। पृष्ठीय भागों के बीच एक नुकीली सुई या नुकीली बांस की छड़ी डालकर और नस को उठाकर डी-वेन करें। धीरे से ऊपर की ओर उठाते हुए टेलसन को हटा दें। आकार श्रेणी के आधार पर 2-3 मिनट के लिए झींगा को 1% उबलते हुए लवण जल में पकाएं। ठंडे पानी में ठंडा करें। छल्ली को अग्र भाग को बरकरार रखते हुए काटें।

**पैकेजिंग :** पीवीसी/पॉलीस्टाइरीन ट्रे में व्यवस्थित रूप से रखें और लैमिनेटेड पाउच में वैक्यूम पैक करें।

**फ्रीजिंग और भंडारण :** मास्टर कार्टन में -40°C पर ब्लास्ट फ्रीजिंग और -18°C से नीचे भंडारण



## 5. श्रीम्प / झींगा स्क्यूएर

**सामग्री:** मीठे पानी का झींगा (एम.रोसेनबर्गी) / बन्नामेर्झ झींगा 26/30 से 31/40 काउंट/किग्रा

**प्रक्रिया:** झींगे को पीने योग्य पानी में धो लें और सिर को अलग करें। धीरे से ऊपर की ओर उठाते हुए टेलसन को हटा दें। पूँछ सहित झींगा को पूरी तरह से छील लें और डी-वेन करें। उलटे "यू" आकार में स्क्यूएर में 4-5 टुकड़े व्यवस्थित रूप से रखें।

**पैकेजिंग:** स्क्यूएर किए हुए झींगा को पीवीसी/पॉलीस्टाइरीन ट्रे में व्यवस्थित रूप से रखें और लैमिनेटेड पाउच में वैक्यूम पैक करें।

**फ्रिजिंग और भंडारण :** मास्टर कार्टन में -40°C पर ब्लास्ट फ्रिजिंग और -18°C से नीचे भंडारण। प्रमुख बाजार जापान, अमेरिका और यूरोप हैं।



## 6. फैनटेल राउड

**सामग्री :** मीठे पानी का झींगा (एम.रोसेनबर्गी) / बन्नामेर्झ झींगा 26/30 से 31/40 काउंट/किग्रा

**प्रक्रिया:** झींगे को पीने योग्य पानी में धो लें और सिर को अलग करें। धीरे से ऊपर की ओर उठाते हुए टेलसन को हटा दें। अग्र भाग और पूँछ को ब्रकरार रखते हुए झींगा को छीलें। झींगे को डी-वेन करें और कैंची से पूँछ को ट्रिम करें।

**पैकेजिंग:** स्क्यूएर किए हुए झींगा को पीवीसी/पॉलीस्टाइरीन ट्रे में व्यवस्थित रूप से रखें और लैमिनेटेड पाउच में वैक्यूम पैक करें।

**फ्रिजिंग और भंडारण :** मास्टर कार्टन में -40°C पर ब्लास्ट फ्रिजिंग और -18°C से नीचे भंडारण।



## 7. कोटेड फैनटेल राउंड

**सामग्री:** फैनटेल राउंड झींगा प्री-डस्ट, बैटर और ब्रेड क्रमब्स।

**प्रक्रिया:** फैनटेल राउंड झींगे को प्री-डस्ट की एक पतली परत मैन्युअल रूप से या प्री-डस्टिंग मशीन का उपयोग करके कोट करें। झींगे को ब्रेडिंग (जापानी शैली के हल्के रंग के मोटे टुकड़ों में जापान के बाजारों के लिए और गहरे रंग के टुकड़ों (पीले-नारंगी) के साथ यूरोपीय और अमेरिकी बाजारों के लिए कोट करें।

**पैकेजिंग:** पीवीसी/पॉलीस्टीरिन ट्रे में व्यवस्थित रूप से रखें, अधिमानत: "वेला" ट्रे में और लैमिनेटेड पाउच में वैक्यूम पैक करें।

**फ्रिजिंग और भंडारण :** मास्टर कार्टन में -40°C पर ब्लास्ट फ्रिजिंग और -18°C से नीचे भंडारण।



## 8. बटरफ्लाई झींगा

**सामग्री:** मीठे पानी का झींगा (एम. रोसेनबर्गी)/वन्नामई झींगा 26/30 से 31/40 काउंट/किग्रा

**प्रक्रिया:** झींगे को पीने योग्य पानी में धो लें और सिर को अलग करें। टेलसन को धीरे से ऊपर की ओर उठकर हटाएं। अग्र भाग और पूँछ को बरकरार रखते हुए झींगा को छीलें। झींगे को डी-वेन करें और कैंची से पूँछ को ट्रिम करें। पार्श्व मांसपेशी ब्लॉक को आर्सिक रूप से अलग करने के लिए एक चाकू (तितली कट) का उपयोग करके पृष्ठीय पक्ष लंबाई-वार करें। तितली के आकार को प्रकट करने के लिए कटी हुई सतह को धीरे से खोलें।

**पैकेजिंग:** पीवीसी/पॉलीस्टाइरीन ट्रे में व्यवस्थित रूप से रखें और लैमिनेटेड पाउच में वैक्यूम पैक करें।

**फ्रिजिंग और भंडारण:** मास्टर कार्टन में -40°C पर ब्लास्ट फ्रिजिंग और -18°C से नीचे भंडारण।



## 9. कोटेड बटरफ्लाई श्रीम्प / झींगा

**सामग्री:** बटरफ्लाई झींगा प्री-डस्ट, बैटर और ब्रेड क्रम्बस।

**प्रक्रिया:** बटरफ्लाई श्रीम्प पर मैन्युअल रूप से या प्री-डस्टिंग मशीन का उपयोग करके प्री-डस्ट की एक पतली परत लगाएं। बाजार के आधार पर, प्री – डस्टिंग किए हुए झींगे को साधारण बैटर या टेम्पुरा बैटर से कोट करें। पके हुए झींगे को ब्रेडिंग (जापानी शैली के हल्के रंग के मोटे टुकड़ों में जापान के बाजारों के लिए और गहरे रंग के टुकड़ों (पीले-नारंगी) के लिए यूरोपीय और अमेरिकी बाजारों के लिए कोट करें।

**पैकेजिंग:** पीवीसी/पॉलीस्टाइरीन ट्रे में व्यवस्थित रूप से रखें और लैमिनेटेड पाउच में वैक्यूम पैक करें।

**फ्रिजिंग और भंडारण :** मास्टर कार्टन में -40°C पर ब्लास्ट फ्रिजिंग और -18°C से नीचे भंडारण।




## 10. बटरफ्लाई सुशी झींगा

**सामग्री:** मीठे पानी का झींगा (एम.रोसेनबर्गी) / वन्नामेर्झ झींगा

26/30 से 31/40 काउंट/किग्रा

**प्रक्रिया:** झींगे को पीने योग्य पानी में धो लें और सिर को अलग करें। टेलसन को धीरे से ऊपर की ओर उठाकर डी-वेन करें। पृष्ठीय पक्ष में बांस की कटार को अग्र भाग तक लंबाई-वार डालें ताकि झींगा पूरी तरह से फैल जाए। आकार श्रेणी के आधार पर 1-2 मिनट के लिए 1% उबलाते हुए ब्राइन में ब्लैच/हल्के से पकाएं। ठंडे पानी में ठंडा करें। पूँछ सहित पके हुए झींगे को पूरी तरह से छील लें। किसी भी तरफ पार्श्व मांसपेशियों के ब्लॉक को नुकसान पहुंचाए बिना एक चाकू का उपयोग करके धीरे-धीरे वेंट्रल साइड लंबाई-वार को अग्र भाग तक काटें। तितली का आकार बनाने के लिए कटी हुई सतह को धीरे से खोलें।

**पैकेजिंग:** पीवीसी /पॉलीस्टाइरीन ट्रे में व्यवस्थित रूप से रखें और लैमिनेटेड पाउच में वैक्यूम पैक करें।



**फ्रीजिंग और भंडारण :** मास्टर कार्टन में -40°C पर ब्लास्ट फ्रीजिंग और -18°C से नीचे भंडारण।

## 11. स्ट्रेच्ड श्रीम्प (नोबाशी)

**सामग्री:** मीठे पानी का झींगा (एम.रोसेनबर्गी) / वन्नामेर्ई झींगा 26/30 से 31/40 काउंट/किग्रा

**प्रक्रिया:** झींगे को पीने योग्य पानी में धो लें और सिर को अलग करें। टेलसन को हटा दें और पूँछ को ट्रिम करें। अग्र भाग और पूँछ को बरकरार रखते हुए, झींगा को छीलें। एक रेजर का उपयोग करके उदर पक्ष पर तीन या चार समानांतर तरीके से कट करें। स्टेनलेस स्टील के मोल्ड का उपयोग करके धीरे से दबाकर झींगा को वांछित लंबाई तक फैलाएं।

**पैकेजिंग:** पीवीसी/पॉलीस्टाइरीन ट्रे अधिमानत: "वेल" ट्रे में व्यवस्थित रूप से रखें और लैमिनेटेड पाउच में वैक्यूम पैक करें।



**फ्रीजिंग और भंडारण :** मास्टर कार्टन में -40°C पर ब्लास्ट फ्रीजिंग और -18°C से नीचे भंडारण।

## 12. ब्रेडेड "नोबाशी"

**सामग्री:** स्ट्रेच्ड झींगा (नोबाशी), प्री-डेस्ट, बेटर एवं ब्रेड क्रांब्स

**प्रक्रिया:** मैन्युअल रूप से या प्री-डस्टिंग मशीन का उपयोग करके बटरफ्लाई झींगा को प्री-डस्टिंग करें। बाजार के आधार पर, प्री – डस्टिंग किए हुए झींगे को साधारण बैटर या टेम्पुरा बैटर से कोट करें। पके हुए झींगे को ब्रेडिंग (जापानी शैली के हल्के रंग के मोटे टुकड़ों में जापान के बाजारों के लिए और गहरे रंग के टुकड़ों (पीले-नारंगी) के लिए यूरोपीय और अमेरिकी बाजारों के लिए कोट करें।

**पैकेजिंग:** पीवीसी/पॉलीस्टाइरीन ट्रे अधिमानत: "वेल" ट्रे में व्यवस्थित रूप से रखें और लैमिनेटेड पाउच में वैक्यूम पैक करें।



**फ्रीजिंग और भंडारण :** मास्टर कार्टन में -40°C पर ब्लास्ट फ्रीजिंग और -18°C से नीचे भंडारण।

### **13. श्रीम्प सर्सिगिल केबाब (बार्बिक्यू)**

**सामग्री:** मीठे पानी का झींगा (एम.रोसेनबर्गी) / बन्नामेर्ड झींगा 26/30 से 31/40 काउंट/किग्रा

**प्रक्रिया:** झींगे को पीने योग्य पानी में धो लें और सिर को अलग करें। झींगा को पूरी तरह से छीलकर ढी-वेन करें। पृष्ठीय पक्ष से एक बास की कटार को अग्र भाग तक लंबाई-वार डालें ताकि झींगा को पूरी तरह से फैलाया जा सके।

**पैकेजिंग:** स्क्यूर्एड झींगा को पीवीसी/पॉलीस्टाइरीन ट्रे में व्यवस्थित रूप से रखें और लैमिनेटेड पाउच में वैक्यूम पैक करें।

**फ्रीजिंग और भंडारण:** मास्टर कार्टन में -40°C पर ब्लास्ट फ्रीजिंग और -18°C से नीचे भंडारण।



### **14. श्रीम्प वेजिटेबिल कबाब**

**सामग्री:** झींगा (कोई भी प्रजाति), गाजर, प्याज और शिमला मिर्च।

**प्रक्रिया:** झींगे को पीने योग्य पानी में धो लें और सिर को अलग करें, छीलें और ढी-वेन करें। 15-30 सेकंड के लिए 1% उबलते हुए ब्राइन में ब्लैंच करें और ठंडे पानी में ठंडा करें। सब्जियों को पीने योग्य पानी में धोएं और लगभग 2 से.मी. क्यूब्स में काट लें या चौकोर टुकड़ों में काट लें और 30 -60 सेकंड के लिए 1% उबलते ब्राइन में ब्लांच करें और ठंडे पानी में ठंडा करें। कटी हुई सब्जियों के साथ बारी-बारी से झींगा को स्क्यूर्एर में व्यवस्थित रूप से रखें।

**पैकेजिंग:** स्क्यूर्एड झींगा सब्जियों को पीवीसी/पॉलीस्टाइरीन ट्रे में व्यवस्थित रूप से रखें और लैमिनेटेड पाउच में वैक्यूम पैक करें।

**फ्रीजिंग और भंडारण :** मास्टर कार्टन में -40°C पर ब्लास्ट फ्रीजिंग और -18°C से नीचे भंडारण।





## संपर्क

भाकृअनुप-केंद्रीय मातिस्यकी प्रौद्योगिकी  
संस्थान का वेरावल अनुसंधान केंद्र  
(भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद)  
मत्स्यभवन, भिड़ीया, वेरावल,  
ગुजरात **362269**  
दूरभाष (02876) 231297,  
फैक्स (02876) 231576